

(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 75/2022

बीरबल पुत्र महादाराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 76/2022

सहीराम पुत्र गजुराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 77/2022

रविन्द्र कुमार पुत्र शीशाराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 79/2022

नितिन कुमार पुत्र रूघवीर सिंह, जाति जाट, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 80/2022

ओमप्रकाश पुत्र गजुराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 81/2022

हरिराम पुत्र महादारा, जाति जाट, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 82/2022

अजय कुमार पुत्र शीशाराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 83/2022

साहिल कुमार पुत्र रूघवीर सिंह, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 86/2022

गोविन्द पुत्र कुरडाराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 88/2022

लोकेश पुत्र राजेश, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

अपील संख्या 90/2022

सत्यवीर पुत्र जमनाराम, जाति कुम्हार, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

— रेस्पोजेन्ट



प्रथम अपील अ0 सेक्शन 75 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 04.08.2021
न्यायालय तहसीलदार चिडावा बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम बीरबल, मुकदमा नम्बर 60/2021, उनवानी
सरकार बनाम सहीराम, मुकदमा नम्बर 55/2021, उनवानी सरकार बनाम रविन्द्र, मुकदमा नम्बर 84/2021,

(Handwritten signature)
न्यायालय

उनवानी सरकार बनाम नितिन कुमार, मुकदमा नम्बर 53/2021, उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश, मुकदमा नम्बर 56/2021, उनवानी सरकार बनाम हरिराम, मुकदमा नम्बर 58/2021, उनवानी सरकार बनाम अजय कुमार, मुकदमा नम्बर 88/2021, उनवानी सरकार बनाम साहिल कुमार, मुकदमा नम्बर 52/2021 उनवानी सरकार बनाम गोविन्द, मुकदमा नम्बर 57/2021, उनवानी सरकार बनाम लोकेश, मुकदमा नम्बर 49/2021, उनवानी सरकार बनाम सत्यवीर, मुकदमा नम्बर 89/2021 समस्त मुकदमों में किस्म मुकदमा धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थित:-

1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोंडेंट की ओर

आदेश

दिनांक 25.08.2022


पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीलें तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरुद्ध मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं स्थगन के पेश की गई है। उक्त अपीलों में प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीले अपीलान्ट्स निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के द्वारा उक्त मुकदमों में पारित निर्णय दिनांकित 04.08.2021 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक क्रमशः 28.07.2021, 30.06.2021 की नियत की जिस पर अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जवाब हेतु प्रार्थना पत्र पेशकर अवसर चाहा जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक क्रमशः क्रमशः क्रमशः 28.07.2021, 30.06.2021 को आईन्दा तारीख पेशी के बारे में अवगत नहीं करवाया व अदालत मातहत ने बाला-बाला ही दिनांक 04.08.2021 को अपीलान्ट्स की गैरहाजिरी दिखाकर उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है जबकि जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट्स का मुख्य अधिकार था जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को उसके पक्ष में मूलभूत जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका व अवसर नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना मार्डण्ड अप्लाई नहीं किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नहीं फरमाया जबकि योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को ग्राम अजीतपुरा के खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 1.03 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 500, 400, 250, 300, 500, 600, 250, 300, 1100, 300 एवं 400 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा उक्त अतिक्रमी भाग भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त अतिक्रमी भाग का नियमन बहक अपीलान्ट्स किये जाने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष मामला हाजा को प्रस्तुत करने की सिफारिश नहीं कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा जिसकी वजह से अपीलान्ट्स को न्याय प्राप्त नहीं हो सका और अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन कर उतावलेपन में उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरुद्ध व कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ है व प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है। अदालत मातहत की पत्रावली पर


बिन्स कलक्टर हुन्डुनू

अगर सही ढंग से गौर फरमाया जाता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध साबित होता है क्योंकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय में यह मानकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है की उक्त अतिक्रमी भाग किस्म गै0मु0 जोहड का बहक अपीलान्ट कानूनन नियमन नहीं किया जा सकता था। जबकि गै0मु0 जोहड भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किये जाने में कानून में व पट्टा जारी करने में कोई रूकावट नहीं है। उक्त अतिक्रमी भाग भूमि पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत कनेक्शन भी विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है जो मौजूदा समय में लगा हुआ है व जल कनेक्शन भी जलदाय विभाग द्वारा दिया गया है जो मौके पर लगा हुआ है व उक्त भूमि का तहसीलदार चिडावा द्वारा जारी पट्टा भी अपीलान्ट्स के पास है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा साबित है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण पर सही ढंग से किसी भी प्रकार से तनिक भी गौर नहीं किया और जान बूझकर आर्बिट्रेरीली उक्त अपीलान्ट्स आदेश दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। अपीलान्ट्स के द्वारा दायर यह अपील प्रथम ही है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 75 (1) के तहत पेश है। अतः अपीलें अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।


उपर्युक्त ग्यारह प्रकरण एक ही ग्राम, एक ही खसरा नम्बर, एक ही भूमि किस्म होने से उक्त प्रकरणों में एक साथ बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया। ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को ग्राम अजीतपुरा के खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 1.03 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 500, 400, 250, 300, 500, 600, 250, 300, 1100, 300 एवं 400 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा उक्त अतिक्रमी भाग की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट्स कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा। विवादित भूमि के मौके पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत व जल कनेक्शन भी संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम अजीतपुरा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 1.03 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 500, 400, 250, 300, 500, 600, 250, 300, 1100, 300 एवं 400 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0जोहड की है जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट्स को कोई हक नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट्स की यह अपील खारिज फरमाई जावे।


नियम हलकर मन्जूर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट्स ने ग्राम अजीतपुरा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 1.03 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से कमशः 500, 400, 250, 300, 500, 600, 250, 300, 1100, 300 एवं 400 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 जोहड की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट्स को गै0मु0जोहड की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपीलान्ट्स की अपीले एक साथ खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 यथावत रखा किया जाता है। अपीले खारीज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, हुंडानुं